

‘भारत में पहली बार’ में एक और कदम

बीईएमएल के बीएल120एच - कॉम्पैक्ट लोडर सह एक्सक्यावेटर का परिचय

बीईएमएल लिमिटेड, जो रक्षा मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है और भारी अर्थ मूविंग मशीनरी के प्रमुख निर्माता है, ने निर्माण क्षेत्र में परिनियोजनार्थ कॉम्पैक्ट लोडर सह एक्सक्यावेटर बीएल120एच का निर्माण किया है। आज बेंगलूर में सम्पन्न 8वां अंतर्राष्ट्रीय निर्माण उपकरण और निर्माण प्रौद्योगिकी व्यापार मेला, एक्सकॉन - 2015 में श्री पी द्वारकानाथ, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और बीईएमएल के कार्यात्मक निदेशकों द्वारा देश में इस तरह के प्रथम बीएल120एच को पेश किया गया ।

बीएल120एच ऐसा एक अद्वितीय उपकरण है, जो एक साथ लोडिंग और एक्सक्यावेटिंग करने में सक्षम है। एक और 'मेड इन इंडिया' उत्पाद बीएल120एच बीईएमएल अनुसंधान एवं विकास नवीनता के प्रयासों का परिणाम है। इस उपकरण में विभिन्न प्रकार की विशेष सुविधाएँ हैं, जैसे इंजन पावर की अनुकूलतम उपयोग के लिए संवेदन हाइड्रोलिक सिस्टम तथा ईंधन दक्षता में सुधार ।



पावरशिफ्ट ट्रांसमिशन, विशाल और अधिकतम आराम सहित तनावमुक्ति के लिए तैयार षट्कोणीय एफओपीएस केबिन और आरामदायक जॉयस्टिक नियंत्रण इसके अतिरिक्त विशेषताएं हैं। इसके अलावा, आर्बिट्रल पावर स्टीयरिंग प्रणाली 6-इन-1 बहु प्रयोजन बकेट, ट्रेंच बकेट, खाई सफाई बकेट, टेपर खुदाई बकेट, जंगली घास हटाने का बकेट, फोर्कलिफ्ट, तिकोनी क्रेन, रिप्पर, रॉक ब्रेकर जैसे अट्टाचमेंट के साथ बीएल120एच को निर्माण क्षेत्र के लिए अधिक विशेष बनाया है।

एक्सकॉन - 2015 में उपरोक्त नए उपकरणों के अलावा, बीईएमएल द्वारा हाइड्रोस्टाटिक ट्रांसमिशन के साथ डोजर (मॉडल बीडी50एचएसटी) तथा 190 अश्वशक्ति के साथ पॉवर एंगलड टिल्ट डोजर (मॉडल बीडी65पीएटी) के अपग्रेडड वर्जन प्रदर्शित किए गए।

बीईएमएल के चार विनिर्माण कॉम्प्लेक्स तथा देश भर में स्थित 32 क्षेत्रीय कार्यालयों तथा सेवा केन्द्रों के साथ नवोन्मेष अनुसंधान एवं विकास कॉम्प्लेक्स द्वारा समर्थन सहित खनन एवं निर्माण उपकरण के विभिन्न संवर्गों को अनावरण किया जाता है जिससे घरेलू और समुद्रपार के बाजारों में स्वयं अग्रणी रहा है।

बेंगलूरु
26.11.2015

बीईएमएल द्वारा रिलीस